

CBKG-001

CBKG-001 भारतीय एवं वैश्विक परिप्रेक्ष्य में काल चिंतन

सत्रीय कार्य

(जुलाई, 2024 एवं जनवरी, 2025 सत्रों के लिये)



मानविकी विद्यापीठ

इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय

मैदान गढ़ी, नई दिल्ली - 110068

# भारतीय एवं वैश्विक परिप्रेक्ष्य में काल चिंतन : CBKG-001

## सत्रीय कार्य (2024-25)

पाठ्यक्रम कोड : CBKG-001/2024-25

प्रिय छात्रो/छात्राओ,

यह सत्रीय कार्य शिक्षक जाँच सत्रीय कार्य (TMA) है। सत्रीय कार्य के लिये 100 अंक निर्धारित किये गये हैं। सत्रीय कार्य में पूरे पाठ्यक्रम से प्रश्न पूछे जायेंगे।

उद्देश्य : शिक्षक जाँच सत्रीय कार्य का उद्देश्य यह जाँचना है कि आपने पाठ्य सामग्री को कितना समझा है और आप उसे अपने शब्दों में कैसे प्रस्तुत कर सकते हैं। यहाँ पाठ्य सामग्री की पुनर्प्रस्तुति से तात्पर्य नहीं है वरन् अध्ययन के दौरान जो कुछ सीखा और समझा है उसे आप आलोचनात्मक ढंग से प्रस्तुत कर सकें।

निर्देश : सत्रीय कार्य आरम्भ करने से पूर्व निम्नलिखित बातों को ध्यान से पढ़िये:

- 1) अपनी उत्तर पुस्तिकाओं के पहले पृष्ठ के दाएँ सिरे पर अनुक्रमांक, नाम, पूरा पता और दिनांक लिखिये।
- 2) बाईं ओर पाठ्यक्रम का शीर्षक, सत्रीय कार्य संख्या और अपने अध्ययन केन्द्र का उल्लेख करें जैसा आगे दिखाया गया है :

अनुक्रमांक : .....

नाम : .....

पता : .....

दिनांक : .....

पाठ्यक्रम का नाम/कोड : .....

सत्रीय कार्य कोड : .....

अध्ययन केन्द्र का नाम/कोड : .....

सत्रीय कार्य के लिए आवश्यक निर्देश

1. **अध्ययन:** सबसे पहले सत्रीय कार्य को ध्यान से पढ़िए । फिर इससे संबंधित इकाईयों का सावधानीपूर्वक अध्ययन कीजिए । अंत में प्रत्येक प्रश्न के संबंध में कुछ विशेष बातें नोट कर लीजिए और उन्हें तार्किक ढंग से व्यवस्थित कीजिए ।

2. **अभ्यास:** उत्तर का प्रारूप तैयार करने से पूर्व नोट की गई बातों पर विचार कीजिए । अनावश्यक बातों को हटा दीजिए और प्रत्येक बिन्दु पर विस्तार से विचार कीजिए । निबन्धात्मक या टिप्पणी परक प्रश्नों में आरम्भ और उपसंहार पर विशेष ध्यान दीजिए । उत्तर के आरम्भिक अंश में प्रश्न की संक्षिप्त व्याख्या और अपने उत्तर की दिशा का संकेत अवश्य दे देना चाहिए । मध्य भाग में आप उत्तर का मुख्य भाग आवश्यक विस्तार के साथ क्रमबद्धता और तार्किक ढंग से प्रस्तुत करें । उपसंहार में उत्तर का सार देना चाहिए ।

यह सुनिश्चित कर लीजिए कि :

क ) आपका उत्तर तार्किक और सुसंगत हो,

ख ) उत्तर सही ढंग से लिखा गया हो तथा आपकी अभिव्यक्ति शैली और प्रस्तुति के पूर्णतया अनुकूल हो,

ग ) आपके लेखन में भाषागत त्रुटियों न हों, विशेष रूप से मात्रा और व्याकरण संबंधी गलतियों से बचें ।

3. **प्रस्तुति:** जब आप अपने उत्तर से पूर्णतया संतुष्ट हो जाएँ, तो उसे साफ़ और सुंदर अक्षरों में उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिए तथा जिन बातों पर आप जोर देना चाहते हैं, उन्हें रेखांकित कर दीजिए ।

शुभकामनाओं के साथ ।

नोट: याद रखें कि परीक्षा में बैठने से पूर्व सत्रीय कार्य जमा कराना अनिवार्य है, अन्यथा आपको परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

सत्रीय कार्य जमा कराने की तिथियाँ :

जुलाई, 2024 सत्र के लिए : 30 अप्रैल, 2025

जनवरी, 2025 सत्र के लिए : 30 नवम्बर, 2025

**सत्रीय कार्य : CBKG-001**  
**भारतीय एवं वैश्विक परिप्रेक्ष्य में काल चिंतन**

सत्रीय कार्य – CBKG-001/TMA/2024-25

पूर्णांक - 100

नोट – इस सत्रीय कार्य में दिए गए सभी प्रश्न अनिवार्य हैं ।

1. निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर (प्रत्येक लगभग 500 शब्दों में) दीजिए । 20 × 2 = 40
  - i) वैदिक उद्धरणों के आधार पर काल सम्बन्धी भारतीय अवधारणा को स्पष्ट करें ।
  - ii) काल की अवधारणा में भारतीय दर्शन से लेकर पौराणिक साहित्य तक क्या समानता पाई जाती है? उदाहरणों के साथ विवेचना करें ।
  - iii) जैन तथा बौद्ध साहित्य काल की अवधारणा के सम्बन्ध में किस प्रकार वैदिक साहित्य के निकट है?
  - iv) चक्रीय तथा एकरैखिक काल के अंतर को स्पष्ट करें ।
  
2. निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं चार प्रश्नों के उत्तर (प्रत्येक लगभग 250 शब्दों में) दीजिए । 10 × 4 = 40
  - i) सेमेटिक मतों की कयामत की अवधारणा तथा वैदिक प्रलय की अवधारणा में क्या अंतर है? उदाहरणों के साथ समझाएं ।
  - ii) सृष्टि रचना के भारतीय मत और आधुनिक पाश्चात्य मत में काल की अवधारणा की क्या भूमिका है?
  - iii) ग्रहों की भारतीय परिभाषा और उनके आधार की व्याख्या करें ।
  - iv) पृथिवी की गतियां कितनी प्रकार की हैं? कालगणना में उनकी क्या भूमिका है?
  - v) सूर्य के परिभ्रमण से क्या तात्पर्य है? सूर्य संक्रान्तियों का ऋतुओं से क्या सम्बन्ध है?
  - vi) भारतीय सन्दर्भों से नक्षत्र तथा राशियों के महत्त्व पर प्रकाश डालें ।
  
3. निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर दीजिए । 10 × 2 = 20
  - i) पुराणों के अनुसार काल किसका स्वरूप है
  - ii) दिन-रात बराबर किस स्थिति में होते हैं?
  - iii) पृथ्वी की भिन्न-भिन्न गतियां कौन सी हैं?
  - iv) सर्वप्रथम काल शब्द का प्रयोग किस वेद में मिलता है ?
  - v) काल-सूक्त का सम्बन्ध किस वेद से है ?
  - vi) किस दर्शन ने काल को पदार्थ के रूप में स्वीकार किया है?
  - vii) ज्योतिष का क्या अर्थ है?
  - viii) जैनमत में कितने प्रकार के पदार्थ माने गए हैं?
  - ix) नौ ग्रहों में से छाया ग्रह कौन से हैं?
  - x) काल शब्द में 'कल्' धातु का अर्थ क्या है ?